

12.06 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNKAL REPORT OF REPATRIATES COOPERATIVE FINANCE AND DEVELOPMENT BANK LTD., MADRAS FOR 1980-81.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI BUTA SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Repatriates Cooperative Finance and Development Bank Limited, Madras, for the year 1980-81 along with Accounts and the Audit Report thereon. (Placed in Library. See No. LT-3539/82).

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

STATEMENT SHOWING ACTION TAKEN ON RECOMENDATIONS

SHRI D. L. BAITHIA (Araria): I beg to lay on the Table Hindi and English versions of the statement showing action taken by Government on the recommendations contained in Chapter I of the Second Report of the Railway Convention Committee (1980) on action taken by Government on the recommendations contained in the Fourth Report of the Railway convention Committee (1977) on 'Delegation of Powers to General Managers' Organization of Zonal Railways' and reorganisation of Railway Board's Office.

COMMITTEE ON PETITIONS

EIGHTH REPORT.

MR. SPEAKER: Shri Bhatia.

SHRI R. L. BHATIA (Amritsar): I beg to present the Eighth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Petitions.

SHRI ERA ANBARASU (Chengalpattu): Sir, Shri Muthukumaran has been beaten....

MR. SPEAKER: Why are you standing here? Please go to your seat. I have my eyes. I have seen. Please sit down.

SHRI K. T. KOSALRAM (Tiruchudur): Sir, an hon. Member of the House, Shri Muthukumaran has been beaten by the D.I.G. (Interruptions) The privilege motion is there. (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will look into it. Give in writing. Please sit down. Now Matters under 377.

Shri Mahavir Prasad.

12.09 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED TO CHECK POLLUTION OF WATER DUE TO DISCHARGE OF SARAIYA DISTILLERY, SARDAR NAGAR IN BANS-GAON DISTRICT

श्री महावीर प्रसाद (वांसगांव) : मान्यवर, मैं आप का ध्यान अपने पिछड़े हुए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वांसगांव के उस विशेष क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जहाँ पर इस समय एक फरेन नाला बहता है। उस सार्वजनिक नाले में आज बीसों वर्षों से सरदार नगर के पास सरैया डिस्टिलरी अपना गंदा पानी छोड़ रहा है जिसके कारण उस सम्पूर्ण क्षेत्र में जहाँ तक वह नाला जाता है सम्पूर्ण पानी दूषित हो गया है और उससे दुर्गन्ध फैल रही है। उस पानी को पीने से काफी पशु मर चुके हैं। साथ ही साथ उस गंदे पानी के कारण मच्छरों की अधिकता हो गई है। फलस्वरूप उस क्षेत्र में एनसेफलाइटिस की बीमारी गत कई वर्षों से रह-रह कर हो जाती है जिसके कारण काफी लोग मर चुके हैं।

(अध्यापन)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): ज्ञानी जी पहले सदन में नहीं थे, इस समय सदन में आने की क्या जरूरत थी, इतना तो पूछ लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: हां, यह बात पूछा जा सकती है? ज्ञानी जी, आप सदन में क्यों आये? यह अच्छा मजाक है

Interruptions

MR. SPEAKER: What all is said is without my permission. Other than 377, not a single word should be recorded.

श्री महाश्री प्रसाद: मान्यवर इस संबंध में स्थानीय खंड विकास अधिकारी सरदार नगर द्वारा जांच कराई गई थी। उस जांच में यह पाया गया कि उक्त नाले का पानी विशेष विषाक्त एवं दूषित हो गया है। फलस्वरूप, उस क्षेत्र में उस गंदे पानी के कारण वायु प्रदूषण काफी बिगड़ता जा रहा है और मानव जीवन एवं पशु जीवन खतरे में पड़ गया है। साथ ही साथ उस नाले में पाई जाने वाली मछलियां भी मरती जा रही हैं। श्रीमन् उस नाले के किनारे-किनारे काफी क्षेत्रों में बोरो नामक धान की फसल उगाई जाती है किन्तु उस गंदे पानी के कारण बोरो धान की फसल बरबाद हो रही है। श्रीमन् उक्त फैक्टरी के पास उक्त गंदे पानी को एकत्रित करने के लिए काफी दिनों से 36 एकड़ भूमि टैंक बनाने के लिए सुरक्षित खाली पड़ी हुई है। किन्तु खेद है कि उक्त फैक्टरी के मालिक ने स्थानीय लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर के अभी तक उक्त सुरक्षित भूमि में टैंक न बनवा कर वायु प्रदूषण एवं एनसेफलाइटिस बीमारी को बढ़ावा दे रहा है और जो जनहित और राष्ट्रहित में नहीं है।

अतः आप के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से नम्र निवेदन है कि अबिलम्ब उक्त समस्या को सुनिश्चाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भेज कर उसका निदान करें ताकि उस क्षेत्र में निवास करने वालों की जिन्दगी सुधर सके।

(ii) SERIOUS CRISES IN INDIGENOUS TASAR SILK INDUSTRY OF TRIBALS IN ORISSA DUE TO IMPORT OF SILK YARN OF CHINESE ORIGIN

*SHRI RASA BEHARI BEHERA (Kalahandi): For centuries, Tasar culture has been the exclusive craft of hill folk and tribals inhabiting in Kalahandi, Keonjhar, Sambalpur and the Similipal forest track of Mayurbhanj district of Orissa. The people of the region in the State of Orissa have accepted this vocation as their principal means of livelihood. They have been meeting the requirements of the domestic market and tasar silk collected from these growers by State Tasar Co-operative Society are supplied to the different tasar silk units of the country for last many decades. The entire families of most of the tribal villages engage themselves in this vocation throughout the year. They work from morn to dusk in growing tasar silk in the deep forest. But it is a matter of great regret that this year the Tasar silk industry is facing serious crisis owing to the import of huge quantity of silk yarn of Chinese origin. Those imported silk yarn have been accumulated for sale in almost all the domestic tasar silk markets of Orissa and other parts of North-eastern region. The flow of imported tasar silk into Orissa and other North Eastern States have resulted in sharp decline of process of the domestic product. The Indian growers particularly of Orissa, mostly tribal, find it extremely difficult to market their produce at such a low price.

**Not recorded.

**The original speech was delivered in Oriya.